

केन्द्रीय विद्यालय नारायणपुर

KENDRIYA VIDYALAYA NARAYANPUR

कक्षा 11 में प्रवेश हेतु पंजीयन /REGISTRATION FOR ADMISSION IN CLASS – XI

सत्र/SESSION 2023-24

Passport size
photo

- विद्यार्थी का नाम/Name of the student: लिंग/ Gender:
- जन्म तिथि / Date of Birth:
- पिता का नाम / Father's Name:
- माता का नाम / Mother's Name:
- माता पिता का व्यवसाय / Occupation of the Parents:
in case of Government servants, service certificate with details of transfers in last seven years to be attached.
- पता / Address:
.....
- संपर्क संख्या / Contact No. :
- श्रेणी / Category (SC/ST/OBC/Gen/PH) :
(In case of SC/ST/OBC/PH, attested photocopy of caste certificate should be attached)
- Year of Passing Class - X: Board: Roll Number:
- Name of the School from where class X passed:
- Details of Marks (Enclose the photocopy of the mark sheet):

English	Hindi	Maths		Science	Social Science	Other Subject (if any)	Total Marks Obtained (without additional subject)	Maximum Marks	Percentage of Marks
		Basic	Standard						

- Have you participated at SGFI / National Level / Regional Level in Sports / NCC/ Scout & Guide/ Adventure Activities (Yes/NO) (If Yes, Attach attested photocopy of certificate):
- Stream applied for **Humanities** (Write subjects from the following table)

Note: For Science with Math standard mathematics is compulsory

Humanities
English Core
Hindi Core/ Informatics Practices/Sanskrit
History
Geography
Economics
Physical Education/ Drawing and Painting/Music

DECLARATION

I..... hereby declare that the entries made by me in the form are true and correct to the best of my knowledge. I assure that I will not change the subject once selected under any circumstances.

(Name & Signature of the Student)

(Name and Signature of the Admission I/c)

(Name & Signature of the Parent)

(Name and Signature of the Class Teacher)

Principal

सेवा प्रमाण पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती....., कार्यालय/मंत्रालय मे कार्यरत हैं वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी/एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ/केन्द्रीय सरकार स्थायित संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण वित्त प्रबंध केन्द्रीय स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....is working in the office/Ministry of He/ She is an employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are transferable anywhere in India.

स्थान एवम दिनांक

Station with date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)

Sign. & Name in block letters and design of the head of office with stamp

दूरभाष/TelephoneNO.

सेवा प्रमाण पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(State Govt)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....विभाग / कार्यालय / मंत्रालय मे कार्यरत हैं वह राज्य मे कहीं भी स्थानांतरणीय राज्य सरकार के एक कर्मचारी है।

Certified that Shri/Smt..... Is working in the office/Ministry of He/ She is an employee of State Government transferable anywhere in the state.

स्थान एवम दिनांक

Station with date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)

Sign. & Name in block letters and design of the head of office with stamp

दूरभाष/TelephoneNO.

स्थानांतरण प्रमाण पत्र/ TRANSFER CERTIFICATE

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो के माता पिता है उनके वर्तमान वर्ष की 31 मार्च से सात वर्षों के दौरान स्थानांतरण हुए हैं। एक/कार्यालय और ऐसी तैनातियों की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसके कारण स्थान बदलना पड़ता है।

Certified that Master/Km.....is the son/daughter of late sh./Smt.....who was employed in the Office/Ministry/Defence service. He/she had died in harness on the.....It is further certified that.....(Particulars of son/daughter.....has/had.....(No. of posting) transfers during the preceding last seven years from 31st March of the current year. The Unit Office & the duration of such postings involving change of station are given below:-

क्र. सं. S.No.	पदनाम Designation	स्थान Place of Posting	ठहरने की अवधि Period of stay		आदेश संख्या Order No.
			से From	तक To	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

स्थान एवं दिनांक

कार्यालय अध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर)

Station with date

Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp

पता/Address -

दूरभाष/Telephone No.....

टिप्पणी- रक्षा संस्थानो मे काम करने वाले कर्मचारियों के मामले मे सेवा प्रमाण पत्र पर कमान अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।

Note : The service Certificate should be signed by the officer commanding in case of employees working in defence establishment.